



# Association of Engineering and Polytechnic College Teachers (Gazetted Officers) of Chhattisgarh

Reg. No.122201923255, Yr- 2019, & Under the aegis of AIFPTO Mobile No 9755873317

**President**  
**Mr. S B Warathe**

**General Secretary**  
**Dr Sailendra Singh**

**Treasurer**  
**Mr Gajendra Dewangan**

क्रमांक/ बैठक/2019/9-15

रायपुर दिनांक 15-9-2019

## कार्यवाही विवरण

विषय:- दिनांक 15-9-2019 को रायपुर में एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक का कार्यवृत्त।

एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग एंड पोलिटेक्नीक कालेज टीचर्स (गेजेटेड अधिकारी) आफ छत्तीसगढ़ की प्रदेश स्तरीय बैठक दिनांक 15-9-2019 को 12.0 बजे बैरन बाजार रायपुर में आयोजित हुई बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक के अनुसार 37 सदस्य उपस्थित हुए। सर्व प्रथम उपस्थित पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत निर्धारित कार्यसूची अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1. AICTE सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रगति पर चर्चा हुई तथा इसे नियमित फालोअप कर शासन से जल्दी लागू करने का अनुरोध करने कहा गया।
2. सदस्यों द्वारा नव नियुक्त व्याख्याताओं एवं विभागाध्यक्ष की परीक्षा अवधि 2 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण होने पर भी, आदेश जारी नहीं होने पर चिंता जताई तथा शासन से आदेश जारी करने हेतु निवेदन करने की सहमति बनी।
3. AICTE छठवे वेतनमान की अनुशंसा अनुसार कैरियर एडवांस स्कीम के तहत पात्र शिक्षकों को 10000 AGP ग्रेड देने की मांग की गई।
4. तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई द्वारा शिक्षकों के निरंतर वैकेशनल अवकाश को कम करने के लिए चिंता जाहिर की गयी तथा शासन स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
5. पोलिटेक्नीक संस्थाओं में कार्यरत AWS को AICTE वेतनमान व्याख्याता तकनीकी शिक्षा अनुरूप देने हेतु निवेदन किया गया, चूंकि शासन द्वारा ही AWS का पद व्याख्याता तकनीकी शिक्षा के समतुल्य माना है।

बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा अगली राज्य स्तरीय बैठक धमतरी में करने की सहमति बनी।

एस बी वराठे

अध्यक्ष



# Association of Engineering and Polytechnic College Teachers (Gazetted Officers) of Chhattisgarh

Reg. No.122201923255, Yr- 2019, & Under the aegis of AIFPTO Mobile No 9755873317

**President**  
**Mr. S B Warathe**

**General Secretary**  
**Dr Sailendra Singh**

**Treasurer**  
**Mr Gajendra Dewangan**

पृ. क्रमांक/बैठक/2019/9-15.

रायपुर दिनांक 15-9-2019

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव महोदया, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्ष भवन ब्लाक 3 तृतीय/ चतुर्थ तल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ ग) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. रजिस्टर, छ ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई को सूचनार्थ।
4. सर्व प्राचार्य शासकीय सहशिक्षा/ महिला पोलिटेक्नीक छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
5. एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग एंड पोलिटेक्नीक कालेज टीचर्स (गेजेटेड अधिकारी) आफ छत्तीसगढ़, के सभी सदस्यगणों को सूचनार्थ।

एस बी वराठे  
अध्यक्ष